

### PTC INDUSTRIES LIMITED

Advanced Manufacturing & Technology Centre NH 25A, Sarai Shahjadi, Lucknow 227 101 Uttar Pradesh, India

Date: August 26, 2022

To, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001

Subject: Disclosure under Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations") – Advertisements in newspapers in respect of matters relating to rights issue of equity shares of the Company ("Rights Issue")

Dear Sir,

In reference to the captioned subject, please find enclosed herewith post-issue newspaper publication, published in Financial Express – English (All editions) and Jansatta – Hindi (All editions) on August 26, 2022, in terms of Regulation 92 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, on completion of various activities, inter-alia including basis of allotment, dispatch of refund orders, for the Rights Issue of Equity Shares.

We request you to take the same on record.

Thanking you.

Yours faithfully,

**PTC INDUSTRIES LIMITED** 

Smita Agarwal
Director and CFO
DIN: 00276903

FINANCIAL EXPRESS

Advertising in

# **TENDER PAGES**

Contact

JITENDRA PATIL Mobile No.: 9029012015 Landline No.:

67440215

TENDER NO. BSL-L-W-T-13-2022 Provision of 3rd supply (MSEDCL

supply) at S&T installations at various locations on Bhusawal division: Sch. A - Igatpuri-Ghot iIBH; Sch. B - Ghoti-Padli IBH; Sch. C - Asvali - Lahavit IBH; Sch. D - Nashik - Odha IBH. Estimated Cost : ₹10,12,955.15 Last Date & Time for closing of tender: 14/09/2022 at 15:00 Hrs. Website particulars https://www.ireps.gov.in

**CENTRAL RAILWAY** 

BHUSAWAL DIVISION

RailMadad Helpline 139

Corporate Communication Division, Plot No. 4, Sector - 10, Dwarka, New Delhi - 110075

पंजाब वैश्वाल बैंक 🕒 punjab national bank

Samartha Advertiser Pvt.

EMPANELMENT NOTICE FOR ADVERTISING AGENCIES Punjab National Bank invites applications for empanelment of advertising agencies for creative and advertising requirements of the bank. Tender document will be available on www.pnbindia.in & https://etender.pnbnet.in from 25.08.2022 which can be downloaded. Interested firms may submit their application duly filled and signed on the prescribed form along-with specified documents to Assistant General Manager, Corporate Communication Division,

1" Floor, PNB, Head Office, Plot No. 4, Sector - 10, Dwarka, New Delhi - 110075 so

as to reach on or before 21.09.2022 up to 15:00 Hrs. Date of virtual pre bid meeting is 09.09.2022 at 15:00 Hrs through Webex. Last date of downloading tender, bid submission & hash preparation is 20.09.2022

Any corrective letter / clarification/ information will be given only on our website https://pnbindia.in for which the bidders should check regularly.

## CLASSIFIED CENTRES IN MUMBAI

Ltd.,

Goregaon (E),

Target Media,

Goregaon (E),

Bijal Visual Ads.,

Mobile: 9322265715

Phone: 28881426 /

Noble Publicity Service,

9702307711

Malad (W).

Malad(W),

28881518.

New Boom Ads,

Kandivali (W).

Kandivali (W),

Borivali (W),

Borivali (E)

Borivali West

*9977*.

Phone: 28645005

Mobile: 9820433200

Express Advertising,

Mobile: 9820401077

Mobile: 9833226463

JEET Advertising Agency

022-28927636 / 28912529

Phone: 2833 7799 / 2833

Falcon Multimedia Pvt. Ltd.,

Phone: 28640221.

Vikson Advertising Agency

Mobile: 8692959648/

Phone: 28835457/ 28805487

Phone: 26852294 Mobile: 9594969627

Carl Advertising, Andheri (W), Phone: 6696 3441 / 42.

Keyon Publicity Andheri (E.) Phone: 28253077 Mobile: 9920992393

Lokhandwala Advertising, Andheri (W), Phone: 26364274 / *26316960*.

Prime Publicity Services, Andheri (E), Phone: 26839686 / *26830304*.

**ZOYA** Creation Andheri West 9833364551

P. V. Advertisers, Jogeshwari (W) Phone: 26768888 Mobile: 9820123000

Neha Agency, Goregaon (E), Phone: 2927 5033. Mobile: 9819099563.

Shark Enterprises, Goregaon (E), Phone: 022-26863587

Goregaon (W) Phone: 28762157 *28726291*.

Classifieds

Adresult Services,

Making A Small Message Go A Long Way .....

एन एच पी सी

**Abhay Kumar Singh** 

Chairman and Managing Director

On behalf of my fellow Board members, I am pleased to

welcome you all to the 46" Annual General Meeting. As we

emerge from the draining impact of the COVID pandemic,

there is greater evidence that India's large scale

vaccination programme has helped us to effectively

combat the pandemic. I wish you all and your loved ones

the best of health and urge you to get yourself and family

We have just completed 75 glorious years of our

independence. A strong, vibrant, flourishing and

confident India is emerging; ready to take its place among

the top countries of the world. The destiny, more than

ever, is in our hands. I foresee a developed India within our

lifetimes. As we move on the path of prosperity and as the

living standards of our people increases so will be the

demand for energy. However, the majority of this

demand will have to be met by clean and green

sources of energy. The impact of human activities on

environment is a global reality. To mitigate the adverse

effects, worldwide the focus will be on adopting green

and renewable sources of energy for meeting most of

the demand. Your Company has always championed

the cause of green energy and all of our power is

generated from green sources only. We have been and

shall continue to be at the forefront of India's energy

transition to a greener future. As one of the largest

hydropower generation companies in India, we are

It gives me immense pleasure to share with you that your

Company had yet another year of stellar all-around

performance. Last two years have been challenging and it

needed all our strength, ingenuity and commitment to

overcome them. Our teams have worked extremely

efficiently and the same has been reflected in our

During the financial year 2021-22, our power stations have

performed remarkably well. We achieved our highest ever

annual Plant Availability Factor (PAF) and our second highest

annual energy generation ever. The progress at our

construction projects, despite the many challenges posed by

the pandemic, has also been equally good. Your company

achieved its highest ever annual CAPEX of Rs.5166 crore in

poised to have our best years ahead.

financial and operational performances.

the FY 2021-22.

Performance and Achievements:

Ladies and Gentlemen.

members fully vaccinated

This is only an advertisement for information purpose and not an offer document announcement. Not for publication, distribution, or release, directly into the United States or otherwise Outside India. All Capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated July 15, 2022 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Stock Exchange, namely BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").



Corporate Identification Number: L27109UP1963PLC002931

**PTC INDUSTRIES LIMITED** 

Registered Office: Advanced Manufacturing & Technology Centre, NH 25A, Sarai Shahjadi, Lucknow 227101, Uttar Pradesh, India

Telephone No.: +91 522-7111017 | Fax No.: +91 522-7111017 Email: info@ptcil.com | Website: www.ptcil.com Contact Person: Ms. Pragati Gupta Agrawal, Company Secretary and Compliance Officer

PTC Industries Limited ("Company" or "Issuer") was originally incorporated as 'Precision Tools & Castings Private Limited' on March 20, 1963 as a private limited company under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Kanpur, Uttar Pradesh and consequently a certificate of incorporation dated March 20, 1963 was issued to our Company. For further details please refer Letter of Offer dated July 15, 2022.

### PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. SACHIN AGARWAL & M/s SACHIN AGARWAL HUF

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF PTC INDUSTRIES LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER") ONLY. ISSUE OF UP TO 78,58,594 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES" OF FACE VALUE OF RS. 10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 10 PER RIGHTS EQUITY SHARE AGGREGATING UP TO RS. 785.86 LAKH ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 3 (THREE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 2 (TWO) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS FRIDAY, JULY 22, 2022 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 115 OF THE LOF.

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

#assuming full subscription

# BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of PTC Industries Limited wishes to thank all its shareholders and investors for their response to the issue which opened for subscription on Wednesday, August 03, 2022 and closed on Friday, August 12, 2022 and the last date for market renunciation of Rights Entitlements was Monday, August 08, 2022. Out of the total 3369 Applications for 1,89,68,366 Equity Shares, 528 Applications for 4,48,114 Equity Shares were rejected on the basis of Ground for technical rejections as disclosed in the LOF. The total number of fully valid applications received were 2841 Applications for 1,8,5,20,252 Equity Shares. In accordance with the LOF and on the basis of allotment finalized on August 23, 2022, in consultation with the Registrar to the Issue and BSE Limited, the Designated Stock Exchange for the Issue, the Company has on August 23, 2022 allotted 78,58,594 Equity Shares to the successful Applicants. All valid applications have been considered for Allotment.

Category	Applications Received		Equity Shares Applied for			Equity Shares Allotted		
Eligible Equity Shareholders	Number	%	Number	Value	%	Number	Value	%
Renouncees	3,221	95.61%	1,85,52,277	18,55,22,770	97.81%	78,48,663	7,84,86,630	99.87%
3001000 TWO TO	148	4.39%	4,16,089	41,60,890	2.19%	9,931	99,310	0.13%
Total	3,369	100.00%	1,89,68,366	18,96,83,660	100.00%	78,58,594	7,85,85,940	100.00%

2. Basis of Allotment

Category	Number of valid Applications Received and considered for allotment	Number of Equity Shares accepted and allotted against Rights Entitlement(A)	Number of Equity Shares accepted and allotted against additional Equity Shares applied for (B)	Total Equity Shares accepted and allotted(A+B)
Eligible Equity Shareholders	2,692	75,60,847	2,87,816	78,48,663
Renouncees	146	9,931		9,931
Total	2,838	75,70,778	2,87,816	78,58,594

Intimations for Allotment/refund/rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and reason for rejection, as applicable, to the investors has been completed on August 25, 2022. The instructions to SCSBs for unblocking funds in case of ASBA Applications were given on August 23, 2022. The Listing application was executed with BSE on August 23, 2022. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of allottees were completed on or about August 24, 2022. For further details please see "Terms of the Issue- Allotment Advices/Refund Orders on page number 144 of the LOF. Pursuant to the listing and trading approvals granted/to be granted by BSE, the Rights Equity Shares Allotted in the issue is expected to commence trading on BSE on or about August 30, 2022. In Accordance with the SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of rights entitlement has been sent to NSDL and CDSL on August 25, 2022.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM

Information Regarding total Applications received (i.e., Applications through ASBA process)

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: The Letter of Offer has not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of issue is less than Rs.5000 Lakhs, however the final letter of offer was filed with SEBI for dissemination purpose. The investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer clause of SEBI" beginning on page 112 of the "LOF".

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited. The investors are advised to refer to the LOF in the full text of the "Disclaimer clause of BSE" on page 113 of the "LOF".

### REGISTRAR TO THE ISSUE

## **LINK**Intime

Link Intime India Private Limited

C - 101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India Telephone: +91 22 4918 6200 Facsimile: +91 22 4918 6195

E-mail: ptc.rights@linkintime.co.in Investor grievance: ptc.rights@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Mr. Sumeet Deshpande

SEBI Registration No: INR000004058

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

### PTC INDUSTRIES

PTC Industries Limited Corporate Identity Number: L27109UP1963PLC002931 Advanced Manufacturing & Technology Centre, NH 25A, Sarai Shahjadi, Lucknow 227 101, Uttar Pradesh, India Tel: +91 522-7111017; Facsimile: +91 522-7111017; Website: www.ptcil.com; E-mail: info@ptcil.com; Contact Person: Ms. Pragati Gupta Agrawal, Company Secretary & Compliance Officer

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre issue or post issue related matter. All grievances relating the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs in case of ASBA process), giving full details such as name, address of the Applicant contact number(s), e- mail address of the sole first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked (in case of ASBA process), ASBA Account number, and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper applications as the-case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process).

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

The LOF is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in; the stock exchange i.e BSE Limited at www.bseindia.com; and the website of the Company, www.ptcil.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 20 of the "LOF". The Rights Entitlements and the Rights Entitlement as amended (the "US Securities Act") or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, allotted, taken up, exercised, renounced, pledged, transferred or delivered, directly or indirectly within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons (as defined in Regulation S except for these purposes, U.S. Persons who would otherwise have been excluded from such term solely by virtue of Rule 902(K)(1)(VIII)(B) or Rule 902(K)(2)(I)), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, the Rights Entitlements and Rights Equity Shares were offered and sold (i) in offshore transactions outside the United States to non-U.S. Persons in compliance with Regulation S to existing shareholders located in jurisdictions where such offer and sale of the Rights Equity Shares is permitted under laws of such jurisdictions, and (ii) in the United States to U.S. Persons who are U.S. QIBs and are also Qualified Purchasers pursuant to applicable exemptions under the US Securities Act and the Investment Company Act.

> For PTC Industries Limited On behalf of the Board of Directors Pragati Gupta Agrawal

Company Secretary and Compliance Officer

Date: August 25, 2022 Place: Lucknow, Uttar Pradesh

# Therefizing India's Dreams With Clean Energy

EXCERPTS OF THE CMD's ADDRESS at 46th ANNUAL GENERAL MEETING held on 25th AUGUST 2022

For the third consecutive year we have a new annual record profit. In FY 2021-22 we achieved our highest ever annual Profit After Tax (PAT) of Rs.3,538 crore (on standalone basis) compared to Rs.3,245 crore in FY 2020-21, a 9% jump. This has been possible due to our goal oriented approach and efficient operation of our power stations. The key highlights on operational and financial fronts are:-

Generation of 24,855 MUs of electricity against the Design Energy of 23,540 MUs;

> NHPC power stations recorded highest ever Annual PAF of 88.19%

> Cash contribution of Rs.1,183.05 crore was made to

Government of India's exchequer through dividend (final dividend for FY 2020-21 of Rs.249.44 crore and interim dividend for FY 2021-22 of Rs.933.61 crore)

Agreement with HDFC Bank for monetization of future cash flows by way of securitization of Return on Equity (RoE) for Chamera-I Power Station (540 MW), Himachal Pradesh. The monetization deal has fetched present value of Rs.1,016.39 crore against the future cash flow of 10 years of Chamera-I Power Station;

Further, in line with the strategic intent to ensure sustained growth, your company has:

> Taken over the 1856 MW Sawalkot HE Project from Jammu & Kashmir State Power Development Corporation Ltd. on December 11, 2021

> Signed Promoters' Agreement with Green Energy Development Corporation of Odisha Ltd. (GEDCOL) for \*Development of 500 MW Floating Solar Projects on different water bodies in Odisha". The proposed equity participation in the Joint Venture between NHPC and GEDCOL shall be in proportion of 74:26. On completion, this project is going to be one of the largest Floating Solar project in the world.

Signed Letter of Intent for "Development of 10000 MW Renewable Energy Parks/ Projects in Rajasthan with Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited and Rajasthan Urja Vikas Nigam Ltd."

> The Government of Andhra Pradesh has consented to allot seven pump storage projects with installed capacity of 6600 MW. These projects will be developed through Joint Venture between NHPC and the State Government. > Inked Memorandum of Understanding (MoU) with NIT

Durgapur for availing services of NIT Durgapur for

undertaking R&D activities in the field of Science,

Engineering and Technology; > Bagged 1000 MW capacity Solar Power Project at a Viability Gap Funding (VGF) of Rs.44.90 lakh/MW under CPSU Scheme, Phase-II, Tranche-III in the e-Reverse auction conducted by Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA)

Trajectory for Growth Sustained economic growth continues to drive electricity

demand in India. With the strength of our balance sheet and our project implementation capabilities, we are confident that we will be contributing significantly to meet the rising demand. The key elements in shaping our growth trajectory are: Expediting construction works at our Project sites.

Expediting the award of major contracts at the projects. Expediting requisite clearances/ approvals for various projects under pipeline.

We are in constant lookout for business opportunities in neighboring countries, especially in our core expertise area of hydropower development. In this regard, NHPC Limited has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Investment Board Nepal, Govt. of Nepal on 18.08.2022 at Kathmandu, Nepal for development of two hydropower projects namely West Seti (750 MW) and Seti River 6 project (450 MW) in Nepal. Further discussions with Vidyut Utpadan Company Limited (VUCL) for development of 480 MW Phuket Karnali Hydroelectric Project in JV mode are in advance stage. The MoU with VUCL is expected to be signed shortly.

NHPC is also looking to venture suitably in the Green

 NHPC is having fruitful discussions with various government agencies for development of Pump Storage Projects.

Highest ever profit of ₹ 3,538 crore Generation of 24,855 MUs Electricity Contributed ₹ 1,183.05 crore to Govt. of India's exchequer Highest ever annual

Your Company is diversifying its business and making efforts to develop renewable energy projects also. Our intent is to play a significant role in the 500 GW installed capacity target from non-fossil fuel sources by 2030, as set by the Government of India. Accordingly, we have identified mega scale projects under different schemes of Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) for expressing our interest in implementation of these projects.

CAPEX of ₹ 5166 crore

### Outlook-opportunities ahead Power is one of the most critical components for the economic

growth of a nation. The economic growth and power consumption are intertwined with each other. Therefore, to ensure sustained growth of the Indian economy adequate growth in power sector is essential. Besides the expected economic growth, rapid industrialization, urbanization and a burgeoning middle class shall keep the demand high for electricity in the foreseeable future.

Today the world is seeing an accelerated pace of transformation in the energy sector wherein the focus is on developing renewable resources. Our country is playing a critical role in developing this low-carbon intensity model,



fuelled mainly by Solar and Wind power. The increased integration of these intermittent resources of power shall pose difficult questions as far as maintaining the grid stability is concerned. Hydropower with its unique ability to quickly ramp up the generation is a readymade solution for such scenarios. Therefore, your Company sees the large integration of Solar and Wind as an opportunity for the hydropower sector. Your Company, being the largest and efficient organization in the sector is optimistic about the business prospects and about its

### capabilities to leverage them for your benefit. Value addition for Nation and Society at large

Your Company believes in contributing to sustainable development and inclusive growth while taking care of people, planet and organisational goal/growth. Creation of value for the nation, stakeholders and society at large with minimal environmental impact has always been a focal point in all operations of your Company. Our commitment towards environment and people is affirmed through our corporate vision & mission, policies and practices adopted.

It has been our endeavour that communities residing in the vicinity of our projects/ power stations and unprivileged sections of the society are empowered economically as well as socially. CSR Initiatives of the Company include activities in the field of skill development, health & sanitation, drinking water supply, women empowerment, capacity building, social infrastructure building etc. During the financial year 2021-22 your Company has spent Rs. 105.29 crore towards its CSR initiatives, which includes contribution of Rs. 30 crore towards PM CARES Fund. Your Company is always committed towards contribution to

the economic development and better quality of life of internal as well as external stakeholders and the society at large.

Your Company is aware of its responsibilities towards the shareholders and believes in wealth creation for them through distribution of part of profit as dividend. The Board has recommended a final dividend of Rs. 0.50/- per equity share for the year 2021-22, subject to your approval at this AGM. This dividend is in addition to the interim dividend of Rs. 1.31/per equity share paid in March, 2022. This is the 13" consecutive year that your Company will be paying dividend.

# Corporate Governance

Your company has adopted best practices of Corporate Governance by ensuring compliance with all regulatory provisions applicable to the Company such as the Companies Act, 2013, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR), Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) issued by Department of Public Enterprises (DPE), Govt. of India and other directives/ guidelines issued by the Government of India from time to time, to the extent compliances are within ambit of the Company. Your company is committed to adhere to the highest standards of Corporate Governance by ensuring transparency, accountability, ethical corporate behaviour and fairness to all stakeholders comprising regulators, employees, customers, vendors, investors and society at large.

# Recognitions and honors

Recognition acts as motivation to improve, excel and achieve further. Your company has received recognition at various forums such as:

Gold Shield for 'Excellence in Financial Reporting' awarded by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) for FY 2020-21 in the category "Infrastructure & Construction Sector-Turnover equal to or more than Rs. 500 crore"

The Company also won the Certificate of Merit for the 'Best Presented Annual Report' from the South Asian Federation of Accountants (SAFA) in the Category "Public Sector Entities".

NHPC's Rajbhasha journal 'Rajbasha Jyoti' was awarded 'First Prize' under 'Rajbhasha Kirti Puruskar (Griha Patrika)' in Region 'A' by Ministry of Home Affairs, Govt. of India for the year 2019-20. NHPC has also been awarded Second Prize for commendable work in implementation of Raibhasha under Raibasha Kirti Puruskar scheme.

> NHPC was conferred with "PSU developer of the year" Award in Gold Category by EQ International during EQ's PV Invest Tech India Conference & Awards at New Delhi

> NHPC was declared 'Winner' in category of 'Best Implementation of Dam Rehabilitation Project' at the Water Digest Water Awards, 2021-2022. > NHPC has been conferred with 'AEOHD Occupational

Health Excellence Award - Public Sector' in recognition of its exemplary contribution in the field of Environmental & Occupational Health (ENOCH) by AEOHD (Association of Environmental & Occupational Health, Delhi)

 NHPC's 510 MW Teesta-V Power Station has been conferred with the prestigious Blue Planet Prize by International Hydropower Association (IHA), a London based non-profit membership association operating in 120 countries.

# **Human Capital**

Human Capital is a valuable resource (asset) of any organization. Your Company has a highly talented team of committed professionals. Your Company has been able to induct, develop and retain the best talent. Organizations grow because of the continuous upgradation of knowledge and skills of its talent pool. Your Company has been providing the best of the opportunities to its human capital to improve their knowledge and skills.

The progress achieved by your Company has been made possible by the untiring efforts of its employees. I acknowledge the dedication and contribution of all employees towards the success of NHPC.

I convey my special thanks and gratitude to Government of India, Ministry of Power, State Governments, Authorities & Agencies of the Union Government and State Government, Office of C&AG, Auditors, Bankers and all other stakeholders for their continual support and goodwill. I would like to place on record my grateful appreciation to all my colleagues for their oversight, support & immense encouragement and for the collective efforts made by entire team of NHPC. Jai Hind.

Place: Faridabad Date: 25.08.2022 General Meeting.

Chairman and Managing Director, NHPC DIN: 08646003 Note: This does not purport to be a record of the proceeding of the Annual

(Abhay Kumar Singh)



Haryana (India) Tel: +91-129-2588110 **Subsidiary Companies** 

⊕ https://www.nhpcindia.com join us: Q ♥ № 4 🔘 🗓

HDC BSUL LONCL LTHPL JPCL CVPPPL RHPCL N



रि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड पंजीकृत कार्वातव : जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉब मार्ग, नई दिल्ली - 110 001



66वीं वार्षिक आम बैठक हेत् सदस्यों को सूचना

कोविड-19 महामारी के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए, कारपोरेट मामले ("एमसीए") मंत्रालय द्वारा जारी उनके परिपन्न सं. 2/2022 दिनांक मई 05, 2022 के साथ पठित सामान्य परिपन्न सं. 20 / 2020. दिनांक 5 मई. 2020 तथा परिपन्न सं. 14 / 2020 और 17 / 2020 क्रमशः दिनांक 08 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के तहत, एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों ("ओएवीएम") की सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावचानों और उसके तहत नियमों, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / परिपत्र / पी / 2020 / 79. दिनांक 12 मई, 2020 ("सेबी परिपत्र") के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ("सेबी (एलओडीआर) विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 66वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी / ओएवीएम की सुविधा के माध्यम से शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022 पूर्वीह 11:00 बजे आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

66वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ, ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम की सुविधा के माध्यम से 66वीं वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के लिए लॉगइन विवरण उन सभी सदस्यों को केवल ई-मेल के माध्यम से भेजे जाएँगे, जिनके ई-मेल पते कंपनी अथवा रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अथवा अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदारों ("डीपी") के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम की सुविधा के माध्यम से ही 66वीं वार्षिक आम बैठक में जुड़ सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश नोटिस में दिए गए हैं। वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की घारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। 66वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी की वेबसाइट (www.stclimited.co.in) स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) और सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को दरस्थ ई-वोटिंग (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) की सुविधा प्रदान कर रही है, ताकि वे 66वीं वार्षिक आम बैठक में तय सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डाल सकें। दूरस्थ ई-वोटिंग हेतु विस्तृत विवरण उक्त नोटिस में दिए गए हैं।

जिन सदस्यों ने ई-मेल के माध्यम से कंपनी या आरटीए के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे 66वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट और वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 66वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने हेत् अपना नाम, फोलियो नंबर / डीपीआईडी व क्लाइंट आईडी, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रतिलिपि (डीमैंट होने के मामले में), शेयर प्रमाण पत्र की कॉपी - सामने और पीछे (भौतिक होल्डिंग्स के मामले में), पैन कार्ड की ख-सत्यापित स्कैन की गई प्रतिलिपि और ई-मेल पता दर्ज करने के समर्थन में आधार कार्ड की ख-सत्यापित स्कैन की गई प्रति उपलब्ध कराकर अपना ई-मेल पता मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास admin@mcsregistrars.com पर या कंपनी के पास cs@stclimited.co.in पर ई–मेल के माध्यम से पंजीकृत करा सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति, जो 66वीं एजीएम के नोटिस के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की तारीख के बाद शेयर प्राप्त करता है और अंतिम तारीख यानी वीरवार, 22 सितम्बर, 2022 को शेयर रखता है, वह 66वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित निर्देशों अनुसार या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड

यदि आपको एजीएम में शामिल होने में तथा ई-वोटिंग प्रणाली के द्वारा ई-वोटिंग करने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप www.evotingindia.com पर सहायता खंड के तहत उपलब्द अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों ("FAQs") और ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting / cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या श्री राकेश दाल्वी, वरिष्ठ प्रबंधक (हेल्पलाइन नं: 022—23058542, 1800 22 5533 ) से संपर्क कर सकते हैं।

उपरोक्त सचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुपालन में है।

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉपॉरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 24.08.2022 हस्ताक्षर/-विपिन त्रिपाठी कंपनी सचिव



भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमिटेड (भारतीय रिजर्व बैंक की सम्पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) नोट मुद्रण नगर, मैसुरु - 570 003, कर्नाटक, इंडिया दूरभाष: +91 821 2582905/15/25, फैक्स नं.: + 91 821 2582099

राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली / खुली निविदा समीक्षा

BRBNMPL निम्नलिखित निविदाओं के लिए पात्र बोलीदाताओं से बोलियां आमंत्रित करता है: निविद्धा सं. 033/MYS/MMD/2022-23 - BRBNMPL मैसुरु में पीवीसी बंडल बैंड फिल्म 40 मिमी और

पीवीसी पैकेट बैंड फिल्म 30 मिमी की आपूर्ति। निविदा सं. 035/MYS/CIVIL/2022-23 - नोट मुद्रा नगर, मैसूरु में बाउंडरी वॉल पर कॉन्सर्टिना कॉइल

बाड उपलब्ध कराना और मौजदा कांटेदार तार की बांड को रि-पेंटींग करना। 3. निविदा सं. 036/MYS/VARNIKA-11/2022-23 - BRBNMPL, मैस्रु में वर्णिका के लिए 20 किलोग्राम

 निविदा सं. 037/MYS/MMD/2022-23 - BRBNMPL, मैसुरु में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पैलेट टक वॉकी की निविदा देंस्तावेज डाउनलोड करने के लिए, उपरोक्त निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि और अन्य विवरण हेतु कृपया हमारी वेबसाइट www.brbnmpl.co.in पर जाएं। आगे शुद्धिपत्र/उपरोक्त निविदाओं में संशोधन, यदि भविष्य में जारी किया जाता है, तो कंपनी की वेबसाइट पर ही अधिसूचित किया जाएगा।

# गुमशुदा की तलाश

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की यह महिला जिसका नाम पल्लवी, पत्नी विकास सरदार, पता- 277बी, लीला राम मार्केट, मस्जिद मोठ, दिल्ली। उक्त महिला दिनांक 17.08.2022 से दोपहर 02:00 बजे से अपने घर से लापता है। इस संबंध में डीडी संख्या 48ए, दिनांक 20.08.2022 को पुलिस थाना हौज खास, दिल्ली, में दर्ज की गई है। स्थानीय पुलिस द्वारा इस लापता महिला की तलाश करने की कोशिश की गयी है लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया।



इस लापता महिला का विवरण इस प्रकार है :

लिंग : स्त्री, उम्र : 19 वर्ष, कद : 5'0", रंग : गोरा, चेहरा : गोल, शरीर पतला, **पहचान चिन्ह** : चेहरे पर एक तिल, **पहनावा** : हरे रंग का सूट सलवार और पैरों में हरे रंग की चप्पल इस गुमशुदा महिला के बारे में यदि कोई जानकारी मिले तो कृपया निम्नलिखित को सूचित करें:

ई-मेल : cic@cbi.gov.in फोन : 011-24368638, 24368641 फैक्स : 011-24368639 DP/316/SD/2022

थाना प्रभारी पुलिस थाना हौज खास, दिल्ली फोन नं. : 011-26867878



स्थानः गुरुग्राम

एसटीएफटी फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड (CIN U67200HR2019PTC080310) यूनिट नं. 111, प्रथम तल, सेन्ट्रम प्लाजा सेक्टर-53, गोल्फ कोर्स रोड, गुरुग्राम, हरियाणा-122002

### सार्वजनिक सूचना

यह सूचना जनिहत में जारी की जा रही है। यूनिट नं. 111, प्रथम तल, सेन्ट्रम प्लाजा सेक्टर-53, गोल्फ कोर्स रोड, गुरुग्राम, हरियाणा-122002 जिसका पंजीकृत कार्यालय युनटि नं. 111, प्रथम तल, सेन्ट्रम प्लाजा सेक्टर-53, गोल्फ कोर्स रोड, गुरुग्राम, हरियाणा-122002 में है ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति के अधीन, 17 अगस्त, 2022 को आयोजित उसके बोर्ड की बैठक में श्री विशाल गप्ता (DIN:0009671749) को कम्पनी की बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के कार्यान्वयन में भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके पत्र संख्या एस 612/सीएमएस-VIII/05.08.000/2022-23 तिथि 24 अगस्त, 2022 के माध्यम से कम्पनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में श्री विशाल गुप्ता की नियुक्ति के लिये अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

कम्पनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में श्री विशाल गुप्ता (DIN:0009671749) की नियुक्ति पर यदि किसी व्यक्ति या सत्ता को कोई आपत्ति हो, वे इस सुचना के 30 दिनों के भीतर akshav.bhatia@stftfinance.com को लिखें या कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में पत्र भेजें। यदि इस सूचना के 30 दिनों के भीतर कोई लिखित आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि कम्पनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में श्री विशाल गुप्ता (DIN:0009671749) की नियुक्ति के प्रति कोई आपत्ति नहीं है।

कृते, एसटीएफटी फाइनांस प्रा. लि. अक्षय भाटिया विशाल गप्ता कम्पनी सचिव

तिथिः 25 अगस्त, 2022

# DIN: 0009671749

# पहचान की अपील



सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह व्यक्ति जिसका नामः नामालूम, पुत्रः नामालूम, पताः नामालूम, उम्रः लगभग 25-30 साल, लिंगः पुरुष, **रंगः** गेहूँआ, **कदः** 5 फुट 7 इंच, **पहनावाः** नीली चेकदार शर्ट और ग्रे पेंट पहने हुए, जो दिनांक 25.08.2022 को सुबह 08:06 बजे, ओमेक्स मॉल के सामने, एचसी सेन मार्ग, चांदनी चौक, दिल्ली में मृत अवस्था में पाया गया।

इस संदर्भ में DD No. 24-A, दिनांक 25.08.2022, थाना—कोतवाली, नई दिल्ली में दर्ज है

हर संभव कोशिश के बाद भी अब तक इस मृतक व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग नहीं मिल पाया है।

यदि किसी भी व्यक्ति को इस मृतक व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें।

थाना प्रभारी थाना-कोतवाली, नई दिल्ली DP/356/N/2022(UIDB) फोन: 011-23977100, 8750870121

### प्रपत्र ए

### सार्वजनिक घोषणा

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध

		यमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]					
E		<b>ामिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ</b>					
Г	संबंधित विवरण						
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	रैप्ट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड					
2.	कार्पीरेट देनदार के निगमन की तिथि	10 दिसंबर, 2012					
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज— नई दिल्ली कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत					
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U22100DL2012PTC245889					
5.	कार्पीरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	पंजी. कार्यालयः एफ—23, सैक्टर—1, बवाना इंडस्ट्रियर एरिया, नई दिल्ली पश्चिम दिल्ली—110039 भारत					
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	24 अगस्त, 2022 (25 अगस्त, 2022 को आईआरपी को प्राप्त आदेश की प्रति)					
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	20 फरवरी, 2023 (दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत की तारीख से 180 वां दिन)					
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	राकेश कुमार जिंदल पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N01148/2021-2022/1396 एएफए वैधः 3 जनवरी 2023					
9.		मकान नंबर 3656 / 6, गली नंबर 6, नारंग कॉलोनी, त्रि नगर, रोज़ गार्डन के पास, नई दिल्ली —110035 <b>ई मेल</b> : iprakesh.jindal@gmail.com					
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनलु कृ,	70—डी, तीसरी मंजिल, पॉकेंट—ए, विकास पुरी एक्सटेंशन,					

12. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की लागू नहीं 4 उप-धारा (६क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई 3 किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के लागू नहीं रूप में कार्य करने हेत् चिहिनत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम

पत्राचार हेत् प्रयुक्त, पता और ई—मेल

दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि

14. (क) संबंधित प्रपन्न उपलब्ध है (क) येबलिंक : https://lbbi.gov.in/home/downloads (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर (ख) लागू नही एतदद्वारा सचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, पीठ—IV ने दिनांक 24 अगस्त, 2022 को

07 सितंबर, 2022

रैप्ट डंडस्टीज प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है। रैप्ट इंडस्टीज प्राइवेट लिमिटेंड के लेनदारों से एतदहारा अपने दावों का प्रमाण 07 सितंबर, 2022 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती हैं। वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा । अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं । किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार (लागू नहीं) जैसा कि प्रविष्टि सं.12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि को प्रपन्न सीए में [लागु नहीं] निदर्शित करेगा । दावे के फर्जी अथवा भामक प्रमाण की प्रस्तृति दंडनीय होगी।

दिनांक: 25.08.2022 स्थानः नई दिल्ली

राकेश कुमार जिंदल अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, रैप्ट इंडस्टीज प्राइवेट लिमिटेड पंजीकरण सं : IBBI/IPA-002/IP-N01148/2021-2022/13963

नई दिल्ली - 110018 ई मेल : cirp-ripl@efficaxindia.com

This is only an advertisement for information purpose and not an offer document announcement. Not for publication, distribution, or release, directly or indirectly into the United States or otherwise Outside India. All Capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated July 15, 2022 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Stock Exchange, namely BSE Limited ("BSE") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").



# **PTC INDUSTRIES LIMITED**

Corporate Identification Number: L27109UP1963PLC002931 Registered Office: Advanced Manufacturing & Technology Centre, NH 25A, Sarai Shahjadi, Lucknow 227101, Uttar Pradesh, India

Telephone No.: +91 522-7111017 | Fax No.: +91 522-7111017 Email: info@ptcil.com | Website: www.ptcil.com Contact Person: Ms. Pragati Gupta Agrawal, Company Secretary and Compliance Officer

PTC Industries Limited ("Company" or "Issuer") was originally incorporated as "Precision Tools & Castings Private Limited" on March 20, 1963 as a private limited company under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Kanpur, Uttar Pradesh and consequently a certificate of incorporation dated March 20, 1963 was issued to our Company. For further details please refer Letter of Offer dated July 15, 2022.

# PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. SACHIN AGARWAL & M/s SACHIN AGARWAL HUF

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF PTC INDUSTRIES LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "ISSUER") ONLY. ISSUE OF UP TO 78.58.594 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES" OF FACE VALUE OF RS. 10 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 10 PER RIGHTS EQUITY SHARE AGGREGATING UP TO RS. 785.86 LAKH ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 3 (THREE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 2 (TWO) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS

ON THE RECORD DATE, THAT IS FRIDAY, JULY 22, 2022 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 115 OF THE LOF.

#assuming full subscription NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

# BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of PTC Industries Limited wishes to thank all its shareholders and investors for their response to the issue which opened for subscription on Wednesday, August 03, 2022 and closed on Friday, August 12, 2022 and the last date for market renunciation of Rights Entitlements was Monday, August 08, 2022. Out of the total 3369 Applications for 1,89,68,366 Equity Shares, 528 Applications for 4,48,114 Equity Shares were rejected on the basis of Ground for technical rejections as disclosed in the LOF. The total number of fully valid applications received were 2841 Applications for 1,8,5, 20, 252 Equity Shares. In accordance with the LOF and on the basis of allotment finalized on August 23, 2022, in consultation with the Registrar to the Issue and BSE Limited. the Designated Stock Exchange for the Issue, the Company has on August 23, 2022 allotted 78,58,594 Equity Shares to the successful Applicants. All valid applications have been considered for Allotment

Category	Applications	Applications Received Equity Shares Applied for				Equity Shares Allotted		
Eligible Equity Shareholders	Number	%	Number	Value	%	Number	Value	%
Renouncees	3,221	95.61%	1,85,52,277	18,55,22,770	97.81%	78,48,663	7,84,86,630	99.87%
	148	4.39%	4,16,089	41,60,890	2.19%	9,931	99,310	0.13%
Total	3,369	100.00%	1,89,68,366	18,96,83,660	100.00%	78,58,594	7,85,85,940	100.00%

2. Basis of Allotment							
Category	Number of valid Applications Received and considered for allotment	Number of Equity Shares accepted and allotted against Rights Entitlement(A)	Number of Equity Shares accepted and allotted against additional Equity Shares applied for (B)	Total Equity Shares accepted and allotted(A+B)			
Eligible Equity Shareholders	2,692	75,60,847	2,87,816	78,48,663			
Renouncees	146	9,931	0.044	9,931			
Total	2,838	75,70,778	2,87,816	78,58,594			

Intimations for Allotment/refund/rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and reason for rejection, as applicable, to the investors has been completed on August 25, 2022. The instructions to SCSBs for unblocking funds in case of ASBA Applications were given on August 23, 2022. The Listing application was executed with BSE on August 24, 2022. For further details please see "Terms of the Issue- Allotment Advices/Refund Orders on page number 144 of the LOF. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE, the Rights Equity Shares Allotted in the issue is expected to commence trading on BSE on or about August 30, 2022. In Accordance with the SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of rights entitlement has been sent to NSDL and CDSL on August 25, 2022.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: The Letter of Offer has not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size of issue is less than Rs.5000 Lakhs, however the final letter of offer was filed with SEBI for dissemination purpose. The investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer clause of SEBI" beginning on page 112 of the "LOF".

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the LOF in the full text of the "Disclaimer clause of BSE" on page 113 of the "LOF".

# **REGISTRAR TO THE ISSUE**

# **LINK**Intime

Link Intime India Private Limited

C - 101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Maharashtra, India Telephone: +91 22 4918 6200 Facsimile: +91 22 4918 6195

E-mail: ptc.rights@linkintime.co.in Investor grievance: ptc.rights@linkintime.co.in

Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Mr. Sumeet Deshpande SEBI Registration No: INR000004058

### COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER PTC

# INDUSTRIES

PTC Industries Limited Corporate Identity Number: L27109UP1963PLC002931

Advanced Manufacturing & Technology Centre, NH 25A, Sarai Shahjadi, Lucknow 227 101, Uttar Pradesh, India Tel: +91 522-7111017; Facsimile: +91 522-7111017; Website: www.ptcil.com; E-mail: info@ptcil.com; Contact Person: Ms. Pragati Gupta Agrawal, Company Secretary & Compliance Officer

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre issue or post issue related matter. All grievances relating the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs in case of ASBA process), giving full details such as name, address of the Applicant contact number(s), e- mail address of the sole first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked (in case of ASBA process), ASBA Account number, and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper applications as the-case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process).

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY. The LOF is available on the website of the SEBI at <a href="https://www.sebi.gov.in">www.sebi.gov.in</a>; the stock exchange i.e BSE Limited at <a href="https://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a>; and the website of the Company, <a href="https://www.ptcil.com">www.bseindia.com</a>; and the website of the Company, <a href="https://www.ptcil.com">www.ptcil.com</a>. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk.

and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 20 of the "LOF". The Rights Entitlements and the Rights Entitlement as amended (the "US Securities Act") or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, allotted, taken up, exercised, renounced, pledged, transferred or delivered, directly or indirectly within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons (as defined in Regulation S except for these purposes, U.S. Persons who would otherwise have been excluded from such term solely by virtue of Rule 902(K)(1)(VIII)(B) or Rule 902(K)(2)(I)), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, the Rights Entitlements and Rights Equity Shares were offered and sold (i) in offshore transactions outside the United States to non-U.S. Persons in compliance with Regulation S to existing shareholders located in jurisdictions where such offer and sale of the Rights Equity Shares is permitted under laws of such jurisdictions, and (ii) in the United States to U.S. Persons who are U.S. QIBs and are also Qualified Purchasers pursuant to applicable exemptions under the US Securities Act and the Investment Company Act.

> For PTC Industries Limited On behalf of the Board of Directors

Pragati Gupta Agrawal

"राधिका", द्वितीयु तल, लॉ ुगार्डन रोड्, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पि

एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 64) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित र्प्रवर्त नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, नीचे विवरणितानुसार उधारकर्ता / ओं को मांग सुचना निर्गत की थी, जिसमें यानी सुचना में संबंधित उधारकर्ताः को, उक्त सूचना में अंकित राषि का, भुगतान की वास्तविक तिथि तक आकलित होनेवाली समस्त लागत प्रभारों एवं व्ययों के साथ, उक्त सूचना प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गर था। उक्त उधारकर्ता / सह–उधारकर्तागण राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हाँ चुके हैं, अतएव एतदृद्व उधारकर्ता / सह–उधारकर्ताओं तथा जनसाधारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इस निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पिटत उक्त अधिनियम की धारा 13(4) व अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, उसके साथ अंकित तिथि को, सांकेतिक आधिपत्य ग्रहण व लिया है। उधारकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जात है कि सम्पत्ति का लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, संबंधित तिथि गणनाकृत भावी ब्याज, लागतों एवं शुल्कों के साथ यहां इसमें विनिर्दिष्ट राशि हेतु एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेर उधारकर्ताओं / सह—उधारकर्ताओं / गारंटरों, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि, प्रतिभृति के विवरणों, मांग सूचना व तिथि, अभ्यर्थित राशि, आधिपत्य की तिथि के विवरण यहां इसमें नीचे दिए गए हैं

## 4) मांग सचना की तिथि: 5) अभ्यर्थित राशि आईएनआर में: 6) प्रतिभृतियों के विवरण: 7) आधिपत्य की तिर्धि

**उधारकर्ता एवं सह—उधारकर्ताओं के नामः** दी दी वर्क्स, भखंड सं. 77, सेक्टर—4, आईएमटी मानेर गुड़गांव—122050, हरियाणा, दी दी टेक्सटाइल्स, मकान संख्या 1411, सेक्टर—21 पंचकुला—पंचकुला, हरियाणा—134109, अभिमन्यु देसवाल, मकान सं. 1411, सेक्टर—21, पंचकुला पंचकुला, हरियाणा–134109, सुरेंद्र सिंह देसवाल, भूखंड सं. 77, सेक्टर–4, आईएमटी मानेसर, गुड़गांव हरियाणा—122050; ऋण खाता संख्याः 2353383; ऋण राशिः रु. 21043187 / — (रुपये दो करोड़ दस लाख तैंतालिस हजार एक सौ सत्तासी मात्र); मांग सूचना तिथिः 06.04.2022; अभ्यर्थित राशिः 04.04. 2022 के अनुसार रु. 15403325 / – (रुपए एक करोड़ चव्वन लाख तीन हजार तीन सौ पच्चीस मात्र) और वास्तविक वसूली तक भविष्य के संविदात्मक ब्याज, आकिस्मिक व्ययों, लागत और शुल्कों, इत्यादि के साथ; प्रतिभृति के विवरणः संपत्ति भूखंड सं. 77 के सभी वह भाग तथा अंश, जो सेक्टर 4 औद्योगिक संपदा चौधरी देवी लाल आईएमटी मानेसर जनपद गुरुग्राम में स्थित हैं जिनका मापन 1012.50 वर्ग मीटर है जो ले. क. एस. एस. देसवाल के स्वामित्वधारण में है और कंवेयंस विलेख सं. 17374 दिनांकत 30.11.2004 के अनुसार उप–पंजीयक गूडगांव के साथ पंजीकृत है और इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व– सड़क, पश्चिम– अन्य, उत्तर– भूखंड सं. 78, दक्षिण– भूखंड सं. 76; आधिपत्य की तिथिः 22.08.2022

कुरुक्षेत्र—136131, हरियाणा, यहां पर भीः दूकान वाका दरकाला मोहन नगर वसिका नं. 7823 1 मारल 32.22 वर्ग गज – थानेसर कुरुक्षेत्र 136131 – लवकेश कुमार, खेरी मरकंदा कुरुक्षेत्र 136131 – दीपव कुमार – मकान सं. 63 खेरी मरकंदा सिरसाला कुरुक्षेत्र 136131 – प्रभजोत नरिंदर पाल – मकान र 63 खेरी मरकंदा सिरसाला कुरुक्षेत्र 136131 – जुगल किशोर मदन शर्मा, मकान सं. 63, खेरी, मरकंद सिरसाला कुरुक्षेत्र 136131, चंदर कांता – मकान सं. 63 खेरी मरकंदा सिरसाला कुरुक्षेत्र 136131 पूनम शर्मा – मकान सं. 63 खेरी मरकंदा सिरसाला कुरुक्षेत्र 136131; ऋण खाता संख्याः 6041219; ऋण राशिः रु. 2144612 / – (रुपए इक्कीस लाख चवालीस हजार छह सौ बारह मात्र); मांग सूचना तिथिः 06. 05.2022; अभ्यर्थित राशिः 04.05.2022 के अनुसार रु. 2339986 / – (रुपए तेईस लाख उनतालिस हजार नौ सौ छियासी मात्र) और वास्तविक वसुली तक भविष्य का संविदात्मक ब्याज, आकरिमक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ; प्रतिभूति के विवरणः दूकान के समस्त वह भाग तथा अंश जिसका माप 32.22 वर्ग गज है जो वाका दरकलां, मोहन नगर, तहसील थानेसर, कुरुक्षेत्र में स्थित हैं और दीपक कुमार एवं लवकेश कुमार दोनों पुत्र जुगल किशोर के स्वामित्वधारण में विक्रय विलेख सं. 7823 दिनांकित 20.12.2004 द्वारा उप-पंजीयक थानेसर जनपद क्रुक्षेत्र के पास पंजीकृत और इस प्रकार परिसीमित है पूर्व- विक्रेता की संपत्ति, पश्चिम- सड़क, उत्तर- विक्रेता की संपत्ति, दक्षिण- हंस राज सैनी की दूकान, विस्तार पूर्व से पश्चिम 29', उत्तर से दक्षिण 10'; 7) आधिपत्य की तिथिः 23.08.2022

उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभृत परिसंपत्ति के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 1 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। किसी पूछताछ या प्रश्न हेत् कृपया श्री आशीष मेहता को दूरभाषः 9729438899 पर और श्री विकास आनंद को 9711010384 पर संपर्क करें। स्थान : हरियाणा, दिनांक : 25/08/2022 हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी, कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेर

# कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड

[CIN: L26924HR1985PLC056150] पंजीकृत कार्यालय : एसएफ-11, दूसरा तल, जेएमडी रीजेंट प्लाज़ा, महरौली गुड़गांव रोड, गांव सिकंदरपुर घोसी, गुड़गांव, हरियाणा - 122001, फोन : +91-124-4081281 कार्पोरेट कार्यालय : जे-1 /बी-1 (एक्सटेंशन), मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, म्युरा रोड, नई दिल्ली - 110044 फोन : + 91-11-26946409 फैक्स : +91-11-26946407 वेबसाइट : www.kajariaceramics.com ई-मेल : investors@kajariaceramics.com

### वीडियो कांफ्रेंस / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित होने वाली कंपनी की 36वीं वार्षिक आम बैठक के सदस्यों का ध्यान आकषित करने के लिए सूचना

कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 36वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियमों, 2015 के अनुपालन में, (सुचीकरण विनियमों) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कंपनी के एजीएम की सचना में निर्धारित व्यापारों का लेन-देन करने के लिए सेबी (इसके बाद में सामृहिक रूप से ('संबंधित परिपत्र' के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी दिनांक 12 मई, 2020 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 15 जनवरी, 2021 परिपन्न सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 और दिनांक 13 मई 2022 परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 के साथ पठित विनियम 2015 ('सूचीकरण विनियम') 08 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 13 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 17 / 2020, 05 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20 / 2020 और 13 जनवरी, 2021 के सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021, 8 दिसंबर, 2021 के सामान्य परिपत्र संख्या 19/2021, 14 दिसंबर, 2021 के सामान्य परिपन्न संख्या 21/2021, 5 मई, 2022 के सामान्य परिपत्र संख्या 02 / 2022 सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 3.00 बजे (भारतीय मानक समय) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विज्अल मीन्स ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसे एजीएम बुलाने के लिए परिचालित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं, इसके अलावा उन सदस्यों को भेजी जाएगी जो इसकी भौतिक प्रति के लिए अनुरोध करते हैं। सदस्य ध्यान दें कि उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.kajariaceramics.com, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') www.nsdl.co.in पर और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं और वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य के लिए गिना जाएगा। एजीएम में शामिल होने के निर्देश और एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के

विस्तृत तरीके एजीएम आमंत्रण सूचना में दिए गए हैं।

कंपनी इलेक्टोंनिक माध्यमों से एजीएम में किए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिनियम के लागू प्रावधानों और संगत परिपत्रों के अनुसार सभी पात्र सदस्यों को एजीएम ('ई-वोटिंग') (सामृहिक रूप से 'इलेक्टॉनिक वोटिंग' के रूप में संदर्भित) के दौरान एजीएम से पहले रिमीट ई-वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई-वोटिंग') और ई-वोटिंग सिस्टम की सुविधा प्रदान कर रही है। एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं /भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से वोट डालने के पात्र नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल सदस्यों को जनके ईमेल पते, यदि कोई हो, को अपडेट करने के बाद उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन सदस्यों की ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी/डिपॉजिटरी में पंजीकृत हैं, वे एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग के लिए दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं, जैसा कि एजीएम के नोटिस में दिया गया है। जिन सदस्यों की ईमेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे अपनी

पालन कर सकते हैं : भौतिक कृपया अपना अनुरोध investors@kajariaceramics.com को भेजें और फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे और पीछे की स्कैन की हुई कॉपी), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति)

ईमेल आईडी को पंजीकृत करने या अपडेट करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का

धारिता

प्रदान करें।

कृपया अपना अनुरोध investors@kajariaceramics.com को भेजें और डीपीआईडी – सीएलर्आडी (16 अंक डीपी – आईडी या 16 अंक का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 17 मई, 2022 को हुई अपनी बैठक में, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 3 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है, जो 36वें एजीएम पर कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन कें अधीन है। यदि अंतिम लाभांश कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तों उसका भुगतान कंपनी के उन इक्विटी शेयरहोल्डरों को किया जाएगा जिन्होंने अपने शेयर इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में रखे हों।

कंपनी के इक्विटी शेयरों को डीमैट रूप में रखने वाले सदस्य और जिन्होंने अपने बैंक विवरण पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक खाते के विवरण को पंजीकृत करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण पंजीकृत नहीं किया है, वे अपने बैंक खाते के विवरण को investors@kajariaceramics.com या admin@mcsregistrars.com पर अनुरोध भेजकर पंजीकृत कर सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और एजीएम की सचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और उन शेयरों कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 16 सितंबर, 2022 तक अपने पास रखता है, वह प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in या admin@mcsregistrars.com पर एक अनुरोध (नाम, फोलियो नंबर / डीपी आईडी-क्लाइंट आईडी, जैसा भी मामला हो और शेयरहोल्डिंग के साथ) भेजकर उसे प्राप्त कर सकता है।

यदि सदस्य की ईमेल आईडी पहले से कंपनी / डिपॉजिटरी में पंजीकत है. तो ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण सदस्य के पंजीकत ईमेल पते पर भेजा जा रहा है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए इन्हीं विवरणों का उपयोग किया जाना चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग प्रयोक्ता पुस्तिका www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध हैं तथा वह सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथी और पांचवीं मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई- 400013 से ईमेल के माध्यम से evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर सकता है या टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 / 1800 22 44 30 पर संपर्क कर सकते हैं।

कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड के लिए

राम चद्र रावत

स्थान : नई दिल्ली Company Secretary and Compliance Officer सीओओ (ए एंड टी) और कंपनी सचिव तिथि : 25 अगस्त, 2022

www.readwhere.com

Place: Lucknow, Uttar Pradesh



Date: August 25, 2022